

प्रेषक,  
राजेन्द्र सिंह पतियाल,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
भूतात्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

विषय: जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम गडेरा में 4.881 है० क्षेत्रफल पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु मै० रूट्स माईनिंग प्रा०लि०, ग्राम व पो० गडेरा, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के पक्ष में खनन पट्टा विलेख निष्पादन के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1205/मु०ख०/49/बागे०/भू०ख०नि०ई०/2007-08/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2018 के साथ संलग्न खनन पट्टा विलेख को निष्पादित कर मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त निष्पादित खनन पट्टा विलेख के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विलेख की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)  
उप सचिव

संख्या: 2060 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. मै० रूट्स माईनिंग प्रा०लि०, ग्राम व पो० गडेरा, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
अर्पण

(अर्पण कुमार राजू)  
अनु सचिव